

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 65]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 7 फरवरी 2015—माघ 18, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2015

क्र. एफ-65-02-2015-तीन-नपा-280.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 22 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिक निगम भोपाल, जिला भोपाल के माह जनवरी 2015 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति महापौर/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्र.	नगरपालिक निगम का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् महापौर / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिक निगम	महापौर	—	—	आलोक शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
2	भोपाल जिला भोपाल.	पार्षद	1	एक	श्रीमती राजकुमारी राजू मीणा	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	कृष्ण मोहन सोनी (मुनन)	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	अशोक मारन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	श्रीमती भारती खटवानी	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	श्रीमति दीपा वासवानी	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	नीतू खरे	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	मनोज राठौर	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	मोहम्मद सउद	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	शबाना शाहिद अली	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	महेश मकवाना	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	मेवालाल पुत्र प्रभूदयाल	निर्दलीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	पार्षद		12	बारह	मंजू धर्मेन्द्र दिवाकर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14	पार्षद		13	तेरह	सीमा मनोज मालवीय	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15	पार्षद		14	चौदह	अब्दुल शफीक खान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16	पार्षद		15	पन्द्रह	वर्षा कमलेश कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी
17	पार्षद		16	सोलह	नाजमा अंसारी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
18	पार्षद		17	सत्रह	रवि वर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
19	पार्षद		18	अठारह	ज्योति गोपाल तिवारी	भारतीय जनता पार्टी
20	पार्षद		19	उन्नीस	शाहवर मंसूरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
21	पार्षद		20	बीस	संजीव गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
22	पार्षद		21	इक्कीस	वात्सयन जैन (सोनू भाभा)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
23	पार्षद		22	बाईस	रईसा मलिक	इंडियन नेशनल कांग्रेस
24	पार्षद		23	तेईस	रफीक कुरैशी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
25	पार्षद		24	चौबीस	शबिस्ता सुल्तान (आसिफ जकी)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
26	पार्षद		25	पच्चीस	श्रीमती सरोज राकेश जैन “अनुपम”	भारतीय जनता पार्टी
27	पार्षद		26	छब्बीस	संतोष उइके	भारतीय जनता पार्टी
28	पार्षद		27	सत्ताईस	प्रदीप मोनू सक्सेना	इंडियन नेशनल कांग्रेस
29	पार्षद		28	अट्ठाईस	लक्ष्मी गोरेवर	भारतीय जनता पार्टी
30	पार्षद		29	उन्नतीस	श्रीमती सन्तोष जितेन्द्र कसाना	इंडियन नेशनल कांग्रेस
31	पार्षद		30	तीस	श्रीमति सीमा प्रवीण सक्सेना	इंडियन नेशनल कांग्रेस
32	पार्षद		31	इकत्तीस	“अमित शर्मा”	इंडियन नेशनल कांग्रेस
33	पार्षद		32	बत्तीस	जगदीश यादव	निर्दलीय
34	पार्षद		33	तैंतीस	शंकर मकोरिया पिता स्व. श्री एल. मकोरिया.	भारतीय जनता पार्टी
35	पार्षद		34	चौतीस	श्रीमती मीना यशवंत यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
36	पार्षद		35	पैंतीस	दिनेश यादव	भारतीय जनता पार्टी
37	पार्षद		36	छत्तीस	प्रीति जैन	भारतीय जनता पार्टी
38	पार्षद		37	सैंतीस	मनोज चौबे	भारतीय जनता पार्टी
39	पार्षद		38	अड़तीस	हेमराज कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी
40	पार्षद		39	उन्तालीस	लक्ष्मी बाई गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
41	पार्षद		40	चालीस	मसरत बाबू मस्तान	भारतीय जनता पार्टी
42	पार्षद		41	इकतालीस	फैहमिदा अकबर खान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
43	पार्षद		42	बयालीस	शमीम बेगम	इंडियन नेशनल कांग्रेस
44	पार्षद		43	तैंतालीस	मो. सगीर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
45	पार्षद		44	चौवालीस	मंजू श्री नगीन बारकिया	भारतीय जनता पार्टी
46	पार्षद		45	पैंतालीस	प्रदुम्न मोनू गोहल	निर्दलीय
47	पार्षद		46	छियालीस	योगेन्द्र सिंह गुडडू चौहान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
48	पार्षद		47	सैंतालीस	राजेश खटीक	भारतीय जनता पार्टी
49	पार्षद		48	अड़तालीस	श्रीमती सुषमा बावीसा	भारतीय जनता पार्टी
50	पार्षद		49	उनन्वास	श्रीमती संतोष हिरवे	भारतीय जनता पार्टी
51	पार्षद		50	पचास	बाबू लाल यादव	भारतीय जनता पार्टी
52	पार्षद		51	इक्यावन	सुरजीत सिंह चौहान	भारतीय जनता पार्टी
53	पार्षद		52	बावन	राम बाबु पाटीदार	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
54	पार्षद	53	तिरेपन	नारायणी	बारेलाल अहिरवार	भारतीय जनता पार्टी
55	पार्षद	54	चौवन	श्रीमति सीमा यादव		भारतीय जनता पार्टी
56	पार्षद	55	पचपन	अर्चना परमार		भारतीय जनता पार्टी
57	पार्षद	56	छप्पन	केवल मिश्रा		भारतीय जनता पार्टी
58	पार्षद	57	सत्तावन	रश्मि सुनील द्विवेदी		भारतीय जनता पार्टी
59	पार्षद	58	अट्ठावन	गीता उपेन्द्र सिंह तोमर		भारतीय जनता पार्टी
60	पार्षद	59	उनसठ	फकीरा कचके		इंडियन नेशनल कांग्रेस
61	पार्षद	60	साठ	श्रीमती ऊषा चुरेन्द्र		भारतीय जनता पार्टी
62	पार्षद	61	इकसठ	गणेश राम नागर		भारतीय जनता पार्टी
63	पार्षद	62	बासठ	डॉली मनीष यादव		इंडियन नेशनल कांग्रेस
64	पार्षद	63	तिरेसठ	दयावती सरदार कैथोरिया		भारतीय जनता पार्टी
65	पार्षद	64	चौसठ	सुरेन्द्र बाडीका		भारतीय जनता पार्टी
66	पार्षद	65	पैंसठ	संजय वर्मा		भारतीय जनता पार्टी
67	पार्षद	66	छियासठ	श्रीमती लक्ष्मी ठाकुर पत्नी श्री ईशवरी सिंह ठाकुर.		भारतीय जनता पार्टी
68	पार्षद	67	सड़सठ	गिरिश शर्मा		इंडियन नेशनल कांग्रेस
69	पार्षद	68	अड़सठ	हरिशंकर मिश्रा पिता स्व. श्री दूधनाथ मिश्रा.		भारतीय जनता पार्टी
70	पार्षद	69	उनहत्तर	कल्पना पप्पू राय		भारतीय जनता पार्टी
71	पार्षद	70	सत्तर	श्रीमती सुषमा चौहान		भारतीय जनता पार्टी
72	पार्षद	71	इकहत्तर	प्रकांत तिवारी		भारतीय जनता पार्टी
73	पार्षद	72	बहत्तर	श्रीमती आशा देवी जैन		भारतीय जनता पार्टी
74	पार्षद	73	तिहत्तर	सुश्री तुलसा वर्मा		भारतीय जनता पार्टी
75	पार्षद	74	चौहत्तर	लीला किशन माली		भारतीय जनता पार्टी
76	पार्षद	75	पचहत्तर	बद्री प्रसाद तिवारी		भारतीय जनता पार्टी
77	पार्षद	76	छिहत्तर	सुषमा बाली		भारतीय जनता पार्टी
78	पार्षद	77	सतहत्तर	मुबारिका कमरूद्दीन दाउदी		इंडियन नेशनल कांग्रेस
79	पार्षद	78	अठहत्तर	काशी बाई		भारतीय जनता पार्टी
80	पार्षद	79	उन्यासी	ब्रजेश सिंह "बब्लेस रजपूत"		भारतीय जनता पार्टी
81	पार्षद	80	अस्सी	रविन्द्र यती		भारतीय जनता पार्टी
82	पार्षद	81	इक्यासी	पवन बोराना		भारतीय जनता पार्टी
83	पार्षद	82	बयासी	भूरा लाल माली 'भूपेन्द्र'		भारतीय जनता पार्टी
84	पार्षद	83	तेरासी	श्रीमती मनफूल श्याम सिंह मीना.		भारतीय जनता पार्टी
85	पार्षद	84	चौरासी	मनजीत सिंह मारन		इंडियन नेशनल कांग्रेस
86	पार्षद	85	पिच्चासी	कामता पाटीदार		भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी.पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.